



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 472 राँची, सोमवार, 3 आषाढ़, 1941 (श०)
24 जून, 2019 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना
14 जून, 2019

संख्या-एल०जी०-41/2015-254/लेज-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक-01/04/2019 को अनुमति दे चुकीं हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019

(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 10, 2019)

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 में संशोधन हेतु अधिनियम ।

भारत गणतंत्र के 70वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो: -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

- (1) यह अधिनियम 'झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019' कहलाएगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90-ख (2) में संशोधन

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90-ख (2) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“इस प्रकार संग्रहीत बाजार फीस राज्य निधि में जमा की जायेगी और नगर विकास एवं आवास विभाग प्राधिकार क्षेत्रान्तर्गत नागरीय सुविधाओं, अवसंरचना, विपणन सुविधायें और स्थापना में आवश्यकतानुसार राशि प्रदान करने हेतु संबंधित प्राधिकार को प्रतिवर्ष यथोचित वितरण करेगी ।”

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

14 जून, 2019

संख्या-एल०जी०-41/2015-255/लेज०--झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीया राज्यपाल द्वारा दिनांक- 01/04/2019 को अनुमत झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

Jharkhand Mineral Area Development Authority (Amendment) Act, 2019

An Act to amend the Jharkhand Mineral Area Development Authority Act, 2000

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Seventieth year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extend and commencement –**

- (1) This Act may be called the Jharkhand Mineral Area Development Authority (Amendment) Act, 2019.
- (2) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force from the date of its issuance notification.

2. **Amendment in Section – 90-B (2) of Jharkhand Mineral Area Development Authority Act, 2000.**

Section 90-B (2) of Jharkhand Mineral Area Development Authority Act, 2000 is substituted as follows:-

“The market-fee so collected shall be deposited in the state fund and the Urban Development and Housing Department shall make suitable allocations every year to the authority concern to provide for Civic amenities, Infrastructure, Marketing facilities and establishment within its area.”

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
